



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ 1945 (श10)
(सं0 पटना 466) पटना, शुक्रवार, 9 जून 2023

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
15 मई 2023

सं०-2/आ०-70-12/2021 गृ०आ० 5954-श्री संजय कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, सरकारी आदेश की अवहेलना एवं सरकारी सेवक के रूप में राज्य के सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलाप में संलिप्त होने जैसे गंभीर आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 के तहत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5098 दिनांक-27.07.2021 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. श्री संजय कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी सम्प्रति निलंबित मुख्यालय-बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना से निलंबन की अवधि एक वर्ष आठ माह पूर्ण होने के फलस्वरूप जीवन निर्वाह भत्ता की बढ़ोत्तरी हेतु प्राप्त अनुरोध के आलोक में इसकी स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर लिया गया है।

3. अतएव श्री संजय कुमार, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डिहरी सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-10 में निहित प्रावधान के तहत देय जीवन निर्वाह भत्ता का पचास प्रतिशत (50%) अर्थात् औसत वेतन का पचीस (25%) प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 466-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>